



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16—मार्च 22, 2013 (फाल्गुन 25, 1934)  
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16—MARCH 22, 2013 (PHALGUNA 25, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

### [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the  
Government of India]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली-23, दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. 203985/2/23/12-प्रशासन--आयोग के दिनांक 12 फरवरी, 2013 के समसंख्यक अधिसूचना के आंशिक संशोधन में, जिसके द्वारा श्री एस. पी. एन. सिंह, आई.डी.ए.एस. (86) को आयोग में अपर सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के पद पर नियुक्त किया गया है, उसमें श्री एस.पी.एन. सिंह, अपर सचिव का नाम श्री संजीव पी.एन. सिंह पढ़ा जाए।

आर. एस. सिन्हा

उप सचिव (प्रशासन)

कृते केन्द्रीय सतर्कता आयोग

गृह मंत्रालय

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी

हैदराबाद-500052, दिनांक 12 फरवरी 2013

सं. 15011/4/2013-स्था.--डॉ निखिल जे. गुप्ता, भा.पु.से.  
(महाराष्ट्र-1996) को गृह मंत्रालय के संप्रेषण संख्या 1-21016/

14/2012-भा.पु.से. III दिनांक 18 दिसम्बर, 2012 के अनुरूप दिनांक 06 फरवरी, 2013 पूर्वाह्न से स.व.प. राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप-निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर पाँच वर्ष के लिए या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले लागू हो, नियुक्त किया जाता है।

मिलिन्द कानस्कर

प्रभारी निदेशक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. 3/1/2006-प्रशा.--सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण डॉ. तपन चक्रवर्ती, सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 जनवरी, 2013 अपराह्न से सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

धनी राम

सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. आर.दो. 01/13/कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों/सहायक कमाण्डेंटों, सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-ए (राजपत्रित)/नॉन मिनिस्टीरीयल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- में रु. 5,400/- ग्रेड वेतन के साथ, अस्थायी रूप से उनके सम्मुख दर्शायी गई तिथि से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम तथा रैंक	रिपोर्ट करने की तिथि	रिपोर्ट किया गया स्थान
1.	डॉ. पूनम, चिकित्साधिकारी	08.02.2013 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, जम्मू
2.	डॉ. महन्ता विजय कुमार देवना, चिकित्साधिकारी	11.02.2013 (पूर्वाह्न)	कम्पोजिट अस्पताल, पूणे

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 3890/11-कार्मिक (चिकित्सा)--सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार करने के फलस्वरूप, डॉ. श्रीनाथ ए. एम. चिकित्सा अधिकारी/सहायक कमाण्डेंट (इरला-8659), 211 बटालियन द्वारा दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) को अपना चार्ज सौंप दिया गया है। तदनुसार, उक्त अधिकारी का नाम इस बल की नफरी से उसी तिथि अर्थात् दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) से हटाया जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. ओ.दो. 6504/2013-डी.ए.-4.-कार्मिक--श्री सुनील कुमार, उप कमाण्डेंट (इरला-6504) 193 बटालियन, केरिपुबल, का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 06.02.2013 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 06.02.2013 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. ओ.दो. 6605/2013-डी.ए.-4.-कार्मिक--श्री शूर वीर सिंह, उप कमाण्डेंट (इरला-6605) 207 बटालियन, केरिपुबल, के सरकारी सेवा से

त्याग-पत्र नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणाम-स्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 31.01.2013 (अपराह्न) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 6499/2013-डी.ए.-4.-कार्मिक--श्री भीम सिंह खट्टा, उप कमाण्डेंट (इरला-6499) 138 बटालियन, केरिपुबल, का सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति नोटिस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लेने के परिणामस्वरूप उपरोक्त अधिकारी ने अपने पद से कार्यभार दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) में त्याग दिया है। अतः इनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.02.2013 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. ओ.दो. 9116/2013-कार्मिक (स.क.)--सहायक कमाण्डेंट के पद से निरीक्षक (जीडी) (पूर्व के पद) के पद पर रिवर्ट (Revert) करने संबंधी अनुरोध के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप, श्री दिनेश धारी सिंह, सहायक कमाण्डेंट (प्रशिक्षु) (आई.आर.एल.ए.-9116), डी.ए.जी.ओ.-43(ए) बैच (44वीं बैच में रेलीगेटेड) ने दिनांक 14.02.2013 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 14.02.2013 (अपराह्न) से इस बल के सहायक कमाण्डेंट की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.पांच-1/2012-कार्मिक (स.क.)--सरकारी सेवा से त्याग-पत्र देने संबंधी नोटिस दिनांक 21.11.2012 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री यॅगखोम राकेश सिंह, सहायक कमाण्डेंट (आई.आर.एल.ए.-7094), 201 कोबरा बटालियन, केरिपुबल ने दिनांक 16.02.2013 (अपराह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 16.02.2013 (अपराह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक. 09/2009-12-कार्मिक-डी.ए.-आठ--गृह मंत्रालय के ओ.एम. संख्या-1-21022/1/2012-कार्मिक-दो दिनांक 12.12.2012 के तहत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों का झारखंड राज्य के नक्सल/एल.डब्ल्यू.ई. प्रभावित जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ऑप्स) के पद पर 03 वर्षों के लिए चयन हो जाने के फलस्वरूप इनकी

सेवाएं इनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से महानिदेशक, झारखंड पुलिस के निपटन (disposal) पर रहेंगी:--

क्र. सं.	इरला	नाम एवं रैंक	बटा./कार्यालय/सैक्टर	दिनांक
(सर्वश्री)				
01	5181	विकास कुमार सिन्हा, उप कमान्डेंट	11 बटालियन/ बिहार सैक्टर	01.01.2013 (अप.)
02	5163	रवि शंकर मिश्रा, उप कमान्डेंट	सी.टी.सी. मुदखेड/ प्रशि. सैक्टर	07.01.2013 (अप.)
03.	5285	मनीष कुमार भारती, उप कमान्डेंट	209 बटालियन/ कोबरा सैक्टर	17.01.2013 (अप.)

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. आर.दो. 01/2013/कार्मिक (एम.ओ.ज.)--राष्ट्रपति जी, डॉ. सुनील कुमार धाकड़ को चिकित्साधिकारी/सहायक कमान्डेंट, (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप-ए (राजपत्रित)/नॉन मिनिस्ट्रियल) के पद पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं रु. 5,400/- ग्रेड वेतन के साथ अस्थायी रूप से दिनांक 06.02.2013 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

सं. डी.एक.02/2006-12-कार्मिक-डी.ए.-आठ--श्रीमती अन्जना, सहायक कमान्डेंट (इरला-8542), 88 बटा. केरिपुबल का एस.पी.जी. में सीनियर सिव्क्यूरिटी ऑफिसर के पद पर 06 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति

पर चयन होने के फलस्वरूप उन्हें Cabinet Secretariat, GOI order No. A-12011/02/2012-SS दिनांक 07.03.2012 के अनुसार दिनांक 10.12.2012 (पूर्वा.) से कार्यमुक्त किया गया है। अतः उक्त अधिकारी की सेवाएं दिनांक 10.12.2012 (पूर्वा.) से एस.पी.जी. मुख्यालय के निपटन (disposal) पर रहेंगी।

बी. एस. चौहान  
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 14 फरवरी 2013

सं. पी. सात-1/2013-मंत्रा.--सूबेदार मेजर (स्टेनो) से सहायक कमान्डेंट (निजि सचिव) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू के श्री सुभाष चन्द्र, (इरला सं. 9237) जो कि वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर हैं, ने दिनांक 07.12.2012 (पू.) को प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली में सहायक कमान्डेंट (निजि सचिव) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सतपाल कपूर  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. पी. सात-1/2013-मंत्रा.--सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) से सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री ओ. पी. यादव, (इरला सं. 9271), ने दिनांक 13.09.2012 (पू.) को कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू में सहायक कमान्डेंट (मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सतपाल कपूर  
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

#### महानिदेशालय

#### केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 20 फरवरी 2013

सं. ई-15014/01/2012/कार्मिक.-II/बोल.-IV/345--राष्ट्रपति नीचे दिये व्यौरे के अनुसार निम्नलिखित सहायक कमान्डेंटों के संबंध में परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करने की घोषणा करते हैं तथा इन सहायक कमान्डेंटों को उनके सम्बन्धित पद में स्थाई करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद	सहायक कमान्डेंट पर पदोन्नति/नियुक्ति की तारीख	परिवीक्षा अवधि संतोष जनक ढंग से पूरी करने की तारीख	सहायक कमान्डेंट के पद में स्थाई होने की तारीख	इकाई
1	2	3	4	5	6	7
(सर्वश्री)						
1.	अवनीश कुमार	स.क./कार्य	04.05.2010	03.05.2012	04.05.2012	2वीं आ. वा. रौंची
2.	चन्दर वीर सिंह	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एचईपी उरी

1	2	3	4	5	6	7
3.	राजेन्द्र सिंह पंवार	स.क./कार्य	05.02.2010	04.02.2012	--	ओएनजीसी देहरादून
4.	जी. आर. मोरघदे	स.क./कार्य	05.02.2010	04.02.2012	--	आईओसी पानीपत
5.	वी. के. शारदा	स.क./कार्य	06.02.2010	05.02.2012	--	जीबीएस दिल्ली
6.	मौगे राम	स.क./कार्य	05.02.2010	04.02.2012	--	आरटीसी अराकोणम
7.	मनीष कुमार शर्मा	स.क./कार्य	22.04.2009	21.04.2011	25.08.2012	4वीं आ.वा. जयपुर
8.	रमन कुमार सिंह	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एचपीसीएल विजाग
9.	बालीराज पाठक	स.क./कार्य	05.02.2010	04.02.2012	--	गेल पाता
10.	प्रभु राम	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एसएसजी नोएडा
11.	विनोद दबादे	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एसएसजी नोएडा
12.	सवितोज सिंह गिल	स.क./कार्य	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	बीएसपी भिलाई
13.	राजपाल	स.क./कार्य	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	बीएसपी भिलाई
14.	विकास पाण्डे	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एचपीसीएल मुंबई
15.	तपन कुमार पोद्दार	स.क./कार्य	23.05.2010	22.05.2012	23.05.2012	बीपीसीएल मुंबई
16.	रवि यादव	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	ऑयल दुलियाजान
17.	दीपक कुमार	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	3वीं आ.वा. भिलाई
18.	कोदा राजू	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	3वीं आ.वा. भिलाई
19.	बिरेन कुमार सेठी	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एसजी अहमदाबाद
20.	ए. एम. प्रसाद	स.क./कार्य	05.02.2010	04.02.2012	--	ईपीएल एन्नौर
21.	टी. हॉकिप	स.क./कार्य	23.05.2010	22.05.2012	23.05.2012	एसडीएससी (शार)
22.	विक्रम सिंह	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	बीआईओएम बचेली
23.	सतीश कुमार सिंह	स.क./कार्य	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	सीएचपीटी चैन्नई
24.	मंजीत कुमार	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एलपीएससी मोहिन्दरगिरी
25.	अबसोलम कच्छप	स.क./कार्य	26.07.2010	25.07.2012	--	एसईसीएल बिलासपुर
26.	जितेन्द्र	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	7वीं आ.वा. जयपुर
27.	नीरज कुमार	स.क./कार्य	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	एसपीजी दिल्ली
28.	तारा सिंह	स.क./जेएओ	15.01.2010	14.01.2012	--	बीएसपी भिलाई
29.	पवन कुमार धमीजा	स.क./जेएओ	15.01.2010	14.01.2012	--	6वीं आ.वा. देवली
30.	तुहिन कुमार मंडल	स.क./जेएओ	22.02.2010	21.02.2012	--	उ.क्ष. साकेत
31.	जय कुमार गुप्ता	स.क./अग्नि	02.02.2010	01.02.2012	--	एफएसटीआई हैदराबाद
32.	रघुवर दयाल	स.क./अग्नि	12.01.2010	11.01.2012	--	आरएचएसटीपीपी रिहन्द
33.	रवि भूषण बगारिया	स.क./अग्नि	25.01.2010	24.01.2012	--	एसएसटीपीएस शक्तिनगर
34.	डी. के. कर	स.क./कार्य	17.02.2010	16.08.2012	--	डीएसपी दुर्गापुर
35.	सी. वी. सेशागिरि राव	स.क./कार्य	05.02.2010	04.08.2012	--	9वीं आ.वा. देवली

1	2	3	4	5	6	7
36.	सिद्धेश्वर सिंह	स.क./जेएओ	15.01.2010	15.12.2012	--	ईसीएल सीतलपुर
37.	ए. के. लाहिरी	स.क./जेएओ	23.01.2010	22.07.2012	--	ईएण्डएनई एपी कोलकाता
38.	यू. पी. श्रीवास्तव	स.क./जेएओ	18.01.2010	17.07.2012	--	वीएसपी विजाग
39.	भगवान पात्रो	स.क./जेएओ	12.02.2009	11.02.2012	--	एपीएस उ.क्षे. मुख्यालय
40.	राजीव रंजन	स.क./कार्य	17.04.2010	शेप-1 होने की तिथि से फिट		एनपीसी कैगा

ह/- अपठनीय  
महानिदेशक/के.औसुब

### भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा)  
का कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 1 मार्च 2013

सं. प्रशा (सा.सा.क्षे.ले.)-17-2 (लेपअ) भाग-VII/3516--ज्ञापन  
सं. प्रशा (सा.सा.क्षे.ले.)/17-2(लेपअ)/भाग-VII/3245  
दि. 31.01.2013 एवं सं. 3445 दिनांक 19.02.2013 द्वारा सूचित का.आ.  
ग. 1256 दिनांक 31.01.2013 एवं का.आ. ग. 1343 दिनांक 19.02.2013  
क्रमशः के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की  
पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से वेतन बैंड-2  
(रु. 9,300--34,800/-) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर लेखापरीक्षा  
अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है :-

क्रं.	नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
(सर्वश्री)		
1.	भवानी प्रसन्न नायक	01.02.2013 पूर्वाह्न
2.	श्रीमती सुभस्मिता आचार्य	01.02.2013 पूर्वाह्न
3.	प्रदीप कुमार खट्टेई	01.02.2013 पूर्वाह्न
4.	दीपक महान्ति	01.02.2013 पूर्वाह्न
5.	श्रीबत्स बलियारसिंह	01.02.2013 पूर्वाह्न
6.	नन्द कुमार बाई	04.02.2013 पूर्वाह्न
7.	दुर्गा माधब मिश्र	25.02.2013 पूर्वाह्न
दीपक महान्ति		
लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन (सा.सा.ले.प.)		

श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. 5/1/2013-सी.पी.आई.--जनवरी, 2013 में आद्यौगिक श्रमिकों का  
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)  
2 अंक बढ़ कर 221 (दो सौ इक्कीस) अंकों के स्तर पर रहा।

एस. एस. नेगी  
निदेशक

### उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

राष्ट्रीय परीक्षण शाला (मुख्या.)

कोलकाता-700091, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

सं. जी-318/ए (मुख्या.)/2012-एडीए--सक्षम प्राधिकारी, श्री सुब्रतो  
चटर्जी, कार्यालय अधीक्षक, राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू. क्षे.) कोलकाता  
को सहायक निदेशक (प्रशासन) (स्तर-II) राष्ट्रीय परीक्षण शाला (पू. क्षे.)  
कोलकाता के पद पर नियमित आधार पर पे बैंड रु. 9,300--34,800/-,  
पीबी-2, जीपी रु. 4,600/- में सहर्ष नियुक्त करते हैं जो कि 10 दिसम्बर  
2012 (पूर्वाह्न) से प्रभावी होगा।

ए. के. सेनगुप्ता  
उपनिदेशक (प्रशा.)

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. 21/11 (2)/2012-सीसीएस/2789--राष्ट्रपति, इस विभाग के भाभा  
परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के उप लेखा नियंत्रक (पीबी-3  
रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) श्री चेताराम सिंह को  
दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में आगामी आदेश होने  
तक परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद में संयुक्त  
नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन  
रु. 7,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाको  
अवर सचिव

सं. 21/11 (2)/2012-सीसीएस/2791--राष्ट्रपति, इस विभाग के भारी  
पानी संयंत्र, मण्गलूरु की लेखा अधिकारी (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/-

+ ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्रीमती आर. उमा महेश्वरी को दिनांक 16 मार्च, 2012 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में आगामी आदेश होने तक उसी इकाई में वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पीबी-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाको  
अवर सचिव

सं. 21/11 (2)/2012-सीसीएस/2793--राष्ट्रपति, इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, मुंबई के वरिष्ठ लेखा अधिकारी (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/-) श्री आर. चंद्रसेकरन को दिनांक 17 अक्टूबर 2012 (पूर्वाह्न) से प्रभावी रूप में आगामी आदेश होने तक भारी पानी संयंत्र, कोटा में उप लेखा नियंत्रक (पीबी-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

सी. डी. चाको  
अवर सचिव

### निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुम्बई-400094, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(199)/2012-भर्ती/167--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को आगामी आदेशों तक निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में उनकी पदोन्नति होने पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित दिनांक तथा ग्रेड में नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	पदोन्नत ग्रेड	वेतन बैंड (रु.)	ग्रेड वेतन (रु.)	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री पी. अग्रवाल	वैअ/एच	पीबी-4 : रु. 37,400--67,000/-	रु. 10,000/-	20.12.2012 (पूर्वाह्न)
2.	श्री एम. वी. पिल्लै	वैअ/एच	पीबी-4 : रु. 37,400--67,000/-	रु. 10,000/-	20.12.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्री के. कासिपेरुमल	वैअ/एच	पीबी-4 : रु. 37,400--67,000/-	रु. 10,000/-	20.12.2012 (पूर्वाह्न)
4.	श्री आर. शर्मा	वैअ/एच	पीबी-4 : रु. 37,400--67,000/-	रु. 10,000/-	20.12.2012 (पूर्वाह्न)

बी. जगन मोहन राव  
प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 21 फरवरी 2013

सं. निसेसंप्रनि/प्र/2(2263)/2012-भर्ती/177--राष्ट्रपति, श्री करी विनोद कुमार को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में दिनांक 23.01.2013 की पूर्वाह्न से पीबी-3 के वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- व ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में आरंभिक वेतन रु. 15,600/- में अगले आदेशों तक तकनीकी अधिकारी 'सी' के पद पर नियुक्त करते हैं।

बी. जगन मोहन राव  
प्रशासन अधिकारी-III

कलपाक्कम-603102, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--निदेशक, सासेसं श्री के. सुब्रमणियन, वरिष्ठ लिपिक, इंगांपअके, कलपाक्कम को दिनांक 19.01.2012 से प्रभावी रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सामान्य सेवा संगठन, कलपाक्कम में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडारे  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--निदेशक, सासेसं श्री एस. रवीन्द्रन, सहायक लेखा अधिकारी, इंगांपअकें, कल्पाक्कम को दिनांक 30.04.2010 से 18.04.2012 तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में लेखा अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासन अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--राष्ट्रपति, श्री एन. विजयराघवन, अवर सचिव, प.ऊ.वि., मुंबई को दिनांक 29.10.2012 से प्रभावी रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--निदेशक, सासेसं श्री एच. एल. जाधव, सहायक, भापअकें, मुंबई को दिनांक 05.09.2012 से प्रभावी रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में वैज्ञानिक अधिकारी/सी अथवा तकनीकी अधिकारी/सी के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	प.प. सं.	पदनाम	से प्रभावी
1	2	3	4	5
1.	डॉ. (श्रीमती) एस. सुबेधा	2121	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)	18.07.2011
2.	श्री नरेन्द्र पेदामल्लु	2123	तकनीकी अधिकारी/सी	03.08.2011
3.	श्री एस. सरवणन	2127	तकनीकी अधिकारी/सी	12.10.2011
4.	श्री के. वी. सजुनाथ	2128	तकनीकी अधिकारी/सी	19.10.2011
5.	डॉ. (श्रीमती) वर्षा चन्द्रकांत ऐतवडे	2129	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)	22.11.2011

1	2	3	4	5
6.	डॉ. वाटसन थॉमस	2138	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)	25.01.2012
7.	डॉ. एस. विजयकुमार	2156	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (चिकित्सा)	13.07.2012

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

दिनांक 26 फरवरी 2013

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/156--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/सी को वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- से वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	प.प. सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	डॉ. एम. के. मोहम्मद रज़ीक	2022	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2009
2.	डॉ. जी. देवानन्द कुमार	2023	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2009
3.	डॉ. टी. जयचन्द्र	2034	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2009
4.	डॉ. बिप्लब चट्टर्जी	2036	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2009
5.	श्री एम. मुरलीकुमार	773	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2010
6.	डॉ. कार्तिक राजेन्द्रन	2030	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2010
7.	डॉ. (श्रीमती) ई. सेल्वानायकी	2040	वै.अ./सी(चि)	वै.अ./डी(चि)	01.07.2010
8.	श्री एस. सेल्वानाथन	748	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2011
9.	श्री पी. मणिमरण	770	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2011
10.	श्री संजय कुमार चौहान	2056	वै.अ./सी	वै.अ./डी	01.07.2011

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/157--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एफ को वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,700/- से वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,900/- में वैज्ञानिक अधिकारी/जी के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई

तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प.प. सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	डॉ. राजशेखरप्पा ई.	1110	वै.अ./एफ	वै.अ./जी	01.07.2012
2.	डॉ. के. मतिवालन	650	वै.अ./एफ(चि)	वै.अ./जी(चि)	01.07.2011
3.	डॉ. दीपक सेन	652	वै.अ./एफ(चि)	वै.अ./जी(चि)	01.07.2012
4.	डॉ. प्रदीप भट्टाचार्य	709	वै.अ./एफ(चि)	वै.अ./जी(चि)	01.07.2009

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/158--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम की डॉ. (श्रीमती) मीना नायर, वैज्ञानिक अधिकारी/ई को वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/- से वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,700/- में वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के पद पर इसी संगठन में दिनांक 01.07.2010 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/159--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/डी को वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 6,600/- से वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 7,600/- में वैज्ञानिक अधिकारी/ई के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प.प. सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	डॉ. (श्रीमती) एस. लक्ष्मी प्रिया	931	वै.अ./डी(चि)	वै.अ./ई(चि)	01.07.2009
2.	डॉ. यू. मनोहरन	974	वै.अ./डी(चि)	वै.अ./ई(चि)	01.07.2009
3.	श्री ई. तनिगेवेल	1033	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2011
4.	श्री एस. तिरुन-वुक्करुसु	1119	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2011
5.	डॉ. वी. जयप्रकाश	930	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2011
6.	डॉ. जे. अशरफ अली	1024	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2011
7.	डॉ. (श्रीमती) निशा ननोत पतयन	1028	वै.अ./डी	वै.अ./ई	01.07.2011

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/160--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के श्री के. मनोहरन, वैज्ञानिक अधिकारी/जी को वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 8,900/- से वेतन बैंड रु. 37,400--67,000/- एवं ग्रेड वेतन रु. 10,000/- में वैज्ञानिक अधिकारी/एच के पद पर इसी संगठन में दिनांक 12.01.2012 से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एस. एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/161--राष्ट्रपति, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारी/एसबी को वेतन बैंड रु. 9,300--34,800/- एवं ग्रेड वेतन रु. 4,800/- से वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- एवं ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर इसी संगठन में उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से प्रभावी, अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	प.प. सं.	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति पर ग्रेड	से प्रभावी
1.	श्री डी. देवराजन	530	वै.अ./एसबी	वै.अ./सी	01.07.2009
2.	श्री एस राजागोपाल	801	वै.अ./एसबी	वै.अ./सी	01.07.2010
3.	श्री पी. कुमरेशन	935	वै.अ./एसबी	वै.अ./सी	01.07.2010

एस.एस. गोंडाले  
प्रशासनिक अधिकारी-III

कल्पाक्कम-603102, दिनांक 15 फरवरी 2013

सं. सासेसं/28(91)/2013-भ/149--राष्ट्रपति, श्री एस.एस. गोंडाले, सहायक कार्मिक अधिकारी, भापअके, मुंबई को दिनांक 12.03.2012 से प्रभावी रु. 15,600--39,100/- के वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन रु. 6,600/- में सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम में प्रशासनिक अधिकारी-III के पद पर अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

एन. विजयराघवन  
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 28 फरवरी 2013

सं. करं/560(5)/2013-14/2482--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	020437	मैसर्स सत्यम टेक्सचुराईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	051289	मैसर्स एम.के.एस. इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	031663	मैसर्स श्रॉफ आई लेजर सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
4.	063640	मैसर्स इम्पीयर कॉमटेक प्राईवेट लिमिटेड
5.	016785	मैसर्स श्री कार्तिक स्टुड्स लिमिटेड
6.	054419	मैसर्स सुजय एज्युकेशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	052564	मैसर्स श्री शीव स्टोरेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
8.	053052	मैसर्स प्रेस्टीज सॉल्ट एण्ड स्टोरेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
9.	050930	मैसर्स कोस्टल शीपिंग एण्ड मेरीन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
10.	053031	मैसर्स अवनी सॉल्ट एण्ड स्टोरेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
11.	053439	मैसर्स न्यु इन्डिया एग्रीकॉम प्राईवेट लिमिटेड
12.	051641	मैसर्स सेग विलेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	053913	मैसर्स व्हाइट फॉरेस्ट डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड
14.	062878	मैसर्स दवे इलैक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड
15.	049433	मैसर्स धारा डायकेम प्राईवेट लिमिटेड
16.	042098	मैसर्स सेगमेन्ट स्टील फेब प्राईवेट लिमिटेड
17.	017673	मैसर्स हाई-हेट रिफ्रेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
18.	002855	मैसर्स फ्लोरीकेन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	060791	मैसर्स नीरजा एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड
20.	056287	मैसर्स व्हाइट माउन्टेन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
21.	037195	मैसर्स श्री रतनालय सेफ डीपॉजिट वोल्ट प्राईवेट लिमिटेड
22.	049781	मैसर्स पंचवटी कोटन ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
23.	038925	मैसर्स कयसूर्या टेक्नोलॉजिस लिमिटेड
24.	043078	मैसर्स अतीत बायोफार्म्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	042453	मैसर्स मैत्री प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	047784	मैसर्स गति ऑटो टेक प्राईवेट लिमिटेड
27.	015518	मैसर्स कुंज बिहारी एग्रोटेक रिसर्च प्राईवेट लिमिटेड
28.	034977	मैसर्स श्री क्रिष्णा इन्फो-मोबाईल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
29.	034927	मैसर्स सुमेधा पैट्रॉकेम प्राईवेट लिमिटेड
30.	065730	मैसर्स श्री गोविंद केपसस प्राईवेट लिमिटेड
31.	004769	मैसर्स प्रेसीसन टेक्नॉफेब प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
32.	065717	मैसर्स श्री श्याम केपसस प्राईवेट लिमिटेड
33.	065751	मैसर्स प्रयास बायो लाईफ साइन्स लिमिटेड
34.	052203	मैसर्स टारेल्ला सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
35.	047332	मैसर्स टीशा डिजाइनर फेब्रीक्स प्राईवेट लिमिटेड
36.	024254	मैसर्स पेसिफिक सिन्थोर्ड गोल्ड ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड
37.	026287	मैसर्स आशु पेट्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
38.	005251	मैसर्स मल्टीकीप मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
39.	022381	मैसर्स अनुज पॉलीफेब प्राईवेट लिमिटेड
40.	023136	मैसर्स अम्मी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
41.	009336	मैसर्स अनुपा ओक्षीकेम एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
42.	004222	मैसर्स फाइन इन्सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
43.	018424	मैसर्स शालीशाद कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
44.	047636	मैसर्स गुजरात ऑटोमोबाइल प्राईवेट लिमिटेड
45.	070575	मैसर्स समीर कुरियर्स एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड
46.	036999	मैसर्स चिराग इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
47.	062834	मैसर्स पार्थ पोलिफेब प्राईवेट लिमिटेड
48.	065890	मैसर्स स्फोनीक्स डिजाइन ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
49.	008794	मैसर्स रेवन्ता पब्लिसिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	030416	मैसर्स विशाल क्रोप साइन्स प्राईवेट लिमिटेड
51.	061111	मैसर्स एस.सी.ओ. मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
52.	046395	मैसर्स हाई-टेक रीयल एस्टेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
53.	058489	मैसर्स प्योर केश मशीन प्राईवेट लिमिटेड
54.	054885	मैसर्स आकाश मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
55.	015643	मैसर्स बिलिआर्ड टेक्स क्रोम्प प्राईवेट लिमिटेड
56.	059808	मैसर्स औराज्ञोन एनर्जी एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड
57.	043915	मैसर्स कार्तिकेय कॉमर्शियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
58.	07026	मैसर्स आलोक इन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
59.	038406	मैसर्स कुंदन इन्फो सिस्टम लिमिटेड
60.	035641	मैसर्स कैजेन ऐप्लायन्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	030543	मैसर्स आत्मीया फार्मास्युटिकल प्राईवेट लिमिटेड
62.	001624	मैसर्स डिप्लो फाउन्ड्री फोर्ज प्राईवेट लिमिटेड
63.	026578	मैसर्स युनियन फोरेक्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
64.	054667	मैसर्स अक्षर क्रोप केयर प्राईवेट लिमिटेड	94.	012585	मैसर्स मोना एग्रोनो केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	043945	मैसर्स डेनियल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	95.	007953	मैसर्स जे डी इलैक्ट्रोनिक्स इन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
66.	056541	मैसर्स बोरोसेद एग्रो मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	96.	054971	मैसर्स एन.एच. स्टोक्स एण्ड करेन्सी ब्रोक्स प्राईवेट लिमिटेड
67.	062767	मैसर्स ऐसार यूटीलाईट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	97.	048690	मैसर्स इंजीनियरिंग डिजाइन रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
68.	060868	मैसर्स बीएलसी नेटवर्क मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	98.	045952	मैसर्स फीस्टा इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
69.	013747	मैसर्स पेटसन मार्केटिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	99.	052670	मैसर्स एमबीबीएस सोल्युशन प्राईवेट लिमिटेड
70.	032396	मैसर्स ज़ीरकॉन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	100.	035415	मैसर्स जीवनप्राण फूड फार्मा केम प्राईवेट लिमिटेड
71.	066686	मैसर्स युनाइटेड रिसाइक्लर्स प्राईवेट लिमिटेड	101.	055220	मैसर्स बालाजी ऑनलाईन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
72.	020418	मैसर्स टाउन प्लाजा होटल्स (अहमदाबाद) प्राईवेट लिमिटेड	102.	064127	मैसर्स एलोयफेर नेचुरा प्राईवेट लिमिटेड
73.	053069	मैसर्स आरएसपी गुडमाईन्ड ऑनलाईन सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	052722	मैसर्स राजस्थान सेज प्राईवेट लिमिटेड
74.	043963	मैसर्स अर्थव एन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड	104.	031514	मैसर्स रॉयल हार्पर एल्वेट्स प्राईवेट लिमिटेड
75.	046471	मैसर्स शारव रीयटी प्राईवेट लिमिटेड	105.	065117	मैसर्स नेक्सीकेम सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
76.	036650	मैसर्स सनराइज़ यार्न्स एण्ड फाइबर्स लिमिटेड	106.	056352	मैसर्स रोज़बीस इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
77.	045546	मैसर्स आत्मीया बॉयो-फूल प्राईवेट लिमिटेड	107.	052843	मैसर्स मुरलीधर लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
78.	062386	मैसर्स सोग कन्सल्टेन्सी प्राईवेट लिमिटेड	108.	052712	मैसर्स श्री लक्ष्मी साल्ट क्रुशींग एण्ड स्टोरेज सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
79.	058994	मैसर्स अक्षत पावर प्राईवेट लिमिटेड	109.	053201	मैसर्स निरंजन लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
80.	065099	मैसर्स श्री अम्बे कान्स्टेबल्स प्राईवेट लिमिटेड	110.	058844	मैसर्स वारसो इवेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
81.	052757	मैसर्स अक्षत मिनरल्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	006589	मैसर्स हालोल सिन्थेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
82.	061705	मैसर्स सॉग होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	112.	012846	मैसर्स किंग्स बी मेटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
83.	052164	मैसर्स अक्षत स्टोक ब्रोकर प्राईवेट लिमिटेड	113.	050692	मैसर्स न्ज़ेड एन्जीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
84.	057936	मैसर्स ग्रीनस्पेस एनरटेक प्राईवेट लिमिटेड	114.	049854	मैसर्स अंबालाल पटेल चश्मावाला प्राईवेट लिमिटेड
85.	048296	मैसर्स ट्रेजिन इमीग्रेशन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड	115.	052904	मैसर्स डी मार्ट रिटेल प्राईवेट लिमिटेड
86.	013598	मैसर्स रामदेव मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	116.	052910	मैसर्स क्रिशीराम पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड
87.	051682	मैसर्स राज (इण्डिया) एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	117.	066221	मैसर्स सेनर्जी ऑयल फील्ड सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
88.	028359	मैसर्स पोप्युलर राइड (गुजरात) फार्मिनान्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	048504	मैसर्स एक्ज्युरेट रोलर्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	037104	मैसर्स आईएल सिस्टम्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	119.	032139	मैसर्स श्री ज्वालाजी सिक्युरिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
90.	013768	मैसर्स चीका फार्मा केम प्राईवेट लिमिटेड	120.	010219	मैसर्स अंबुजा टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
91.	031811	मैसर्स अल्टीयस एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड	121.	037838	मैसर्स आईटी आइडिया एण्ड सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	056339	मैसर्स सुपर सिटी कोरियर्स एण्ड कार्गो प्राईवेट लिमिटेड	122.	018177	मैसर्स परीश्रम टेक्नो इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
93.	049414	मैसर्स ग्रीनओरीजीन एग्रोनीक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	052147	मैसर्स पल्स अवेल् सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
			124.	006905	मैसर्स पेलीकेन फेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
125.	020155	मैसर्स अनुराधा फोटोक्रेम प्राईवेट लिमिटेड
126.	054581	मैसर्स श्री रंग कॉमोडिटीज़ प्राईवेट लिमिटेड
127.	057597	मैसर्स पिरामिड पोर्टफोलियो ट्रेडकोम प्राईवेट लिमिटेड
128.	017161	मैसर्स युनीरा लेबोर्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड
129.	022554	मैसर्स पेक प्रिन्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
130.	050704	मैसर्स जेके एल्युमेटल्स प्राईवेट लिमिटेड
131.	009923	मैसर्स फेनी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
132.	061788	मैसर्स वीन फ्रॉन्टेंड सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
133.	040765	मैसर्स इन्फो-मिडिया टेक्नो पार्क्स प्राईवेट लिमिटेड
134.	038433	मैसर्स सारेग्रा इन्फोटेक्नेन्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	001415	मैसर्स टीन्को प्राईवेट लिमिटेड
136.	009097	मैसर्स मुकुन्द पॉलीटेक्स लिमिटेड
137.	049653	मैसर्स गोल्फ मनेजमेन्ट ग्रुप प्राईवेट लिमिटेड
138.	054441	मैसर्स डालमिया विद्यापीठ प्राईवेट लिमिटेड
139.	052758	मैसर्स श्री तिरुपती सॉल्ट क्रशिंग एण्ड वेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
140.	040019	मैसर्स वैष्णव इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
141.	052565	मैसर्स श्री विष्णु वेयरहाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
142.	065310	मैसर्स स्पेस मेट्रिक्स मोबाइल (गुजरात) प्राईवेट लिमिटेड
143.	039753	मैसर्स योग सागर हर्बल लिमिटेड
144.	020158	मैसर्स सिराली सिन्थेटिक प्राईवेट लिमिटेड
145.	001799	मैसर्स रोयल्स इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
146.	029517	मैसर्स सिसल प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
147.	052257	मैसर्स श्रेष्ठ ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड
148.	052686	मैसर्स लिमिट लेस फॉर्च्युन फाईनान्स कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड
149.	038653	मैसर्स पाटीदार फूड लिमिटेड
150.	059589	मैसर्स किशन रियल एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
151.	046675	मैसर्स गोवर्धन रेस्टोरेन्ट एण्ड पैलस प्राईवेट लिमिटेड
152.	047188	मैसर्स अनुज कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
153.	062786	मैसर्स डवीती फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
154.	059606	मैसर्स कंडला इन्डस्ट्रीयल एण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
155.	051217	मैसर्स टेटल हेल्थ वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
156.	050499	मैसर्स अरबन स्पेस वेन्चर्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	051249	मैसर्स पॉलिकेन इबय प्राईवेट लिमिटेड
158.	050496	मैसर्स ओसियेनिक होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
159.	050633	मैसर्स टाईगर इन्फ्रा-सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
160.	071222	मैसर्स योगकिरण इन्फ्रा एनर्जी एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
161.	068742	मैसर्स अभिषेक कॉटन प्राईवेट लिमिटेड
162.	062065	मैसर्स स्केप टारुनशिप (धोलेरा) प्राईवेट लिमिटेड
163.	061404	मैसर्स स्केप टारुनशिप प्राईवेट लिमिटेड
164.	066051	मैसर्स स्पार्क पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
165.	067062	मैसर्स प्राकृति रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड
166.	035097	मैसर्स विनपेक एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
167.	050587	मैसर्स ओमकार मिडिया इन्टरटेनमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
168.	064660	मैसर्स पद्मावती इन्फ्राबाईल्ड प्राईवेट लिमिटेड
169.	054440	मैसर्स ओलपाड ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड
170.	003194	मैसर्स लॉ गार्डन ज़िमखाना प्राईवेट लिमिटेड
171.	0026457	मैसर्स बास ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
172.	033242	मैसर्स भगवती फाईन फ्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	024029	मैसर्स सोनल सिक्वोरिटीज़ लिमिटेड
174.	055118	मैसर्स जोबडिला सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
175.	054681	मैसर्स ऐसार हेवी इंजीनियरिंग सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
176.	054687	मैसर्स केपीजी एक्विजम (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
177.	060475	मैसर्स एचवीआई सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	067397	मैसर्स ब्ल्यू प्रिन्ट इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
179.	054348	मैसर्स डोव जीएसीएल सोल्वेन्चर लिमिटेड
180.	050817	मैसर्स बिजनेस बाय इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड रियल्टीटिज़ प्राईवेट लिमिटेड
181.	055486	मैसर्स फोरवर कोरपोरेट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
182.	062746	मैसर्स ऐसार इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
183.	064975	मैसर्स कन्स्ट्रास्ट इटरी प्राईवेट लिमिटेड
184.	048521	मैसर्स राइटटेक टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड
185.	032478	मैसर्स मीना पावर सप्लाय प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
186.	024384	मैसर्स ग्लोरी बुलीयन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड	215.	007745	मैसर्स विसनगर सबमर्सीबल पम्पस प्राईवेट लिमिटेड
187.	040339	मैसर्स ए.आर.के. पफोमन्स पोलीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	216.	064728	मैसर्स सीस्कॉम स्टडी कन्सेप्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
188.	064024	मैसर्स नैश्वरी प्लास्मा टेक्नोलॉजीक्स प्राईवेट लिमिटेड	217.	035191	मैसर्स जी.सी.कार्गो एजेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
189.	043440	मैसर्स कारसोल सॉफ्ट-डिजाइन प्राईवेट लिमिटेड	218.	063094	मैसर्स एफ.जे.मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
190.	060942	मैसर्स जी.एस.एन. होटेल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	219.	009304	मैसर्स जेम सर्जिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
191.	062368	मैसर्स आस्डी आउटसोर्सिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	220.	060014	मैसर्स इनोक्स फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
192.	060936	मैसर्स रेक्टम फीनसर्व प्राईवेट लिमिटेड	221.	061425	मैसर्स ग्रीनस्पेस एग्रीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड
193.	063171	मैसर्स सेटेलाइट पावर टेक प्राईवेट लिमिटेड	222.	061432	मैसर्स ग्रीनस्पेस वेन्चर प्राईवेट लिमिटेड
194.	042386	मैसर्स गौरव इवेन्ट्स ओर्गेनाइजर प्राईवेट लिमिटेड	223.	050266	मैसर्स सुखमणी एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड
195.	053710	मैसर्स पार्श्व जेवेल्स प्राईवेट लिमिटेड	224.	055246	मैसर्स क्लेक्सोन बोइस प्राईवेट लिमिटेड
196.	057507	मैसर्स मार्स कन्सल-टेक प्राईवेट लिमिटेड	225.	052624	मैसर्स सोलीड लोजीस्टिक्स लिमिटेड
197.	058891	मैसर्स देववीर टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	226.	051804	मैसर्स तक्षशीला इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड
198.	059812	मैसर्स आर्या ओरम प्राईवेट लिमिटेड	227.	054531	मैसर्स मारवल ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
199.	036173	मैसर्स अर्पित डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	228.	047411	मैसर्स अंबुजा कोटफाईबर प्राईवेट लिमिटेड
200.	029252	मैसर्स विक्रान्त एजेन्सीस प्राईवेट लिमिटेड	229.	059470	मैसर्स कीस्को इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
201.	066792	मैसर्स एल्युर केबल एसेम्बलीस प्राईवेट लिमिटेड	वी. एस. हजारे सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार गुजरात		
202.	055634	मैसर्स एम.आर.एच. सोर्सिंग प्राईवेट लिमिटेड			
203.	055225	मैसर्स मिहिर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 और		
204.	047348	मैसर्स बडीयावाला पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	मैसर्स फिनपिक लीजिंग एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड के विषय में		
205.	057785	मैसर्स राम रूप प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	पणजी-403001, दिनांक 20 फरवरी 2013		
206.	022808	मैसर्स एनारीलेक्स प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के		
207.	043709	मैसर्स आर्य शाह मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स फिनपिक लीजिंग		
208.	046055	मैसर्स ऐसार स्टील कर्णाटक लिमिटेड	एण्ड फाईनेन्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और		
209.	060228	मैसर्स रीशी इलमेक प्राईवेट लिमिटेड	उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।		
210.	046055	मैसर्स टाईम डाईग्नोस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	श्रीधर पामर्थी कम्पनी रजिस्ट्रार गोवा, दमन एवं दीव		
211.	060228	मैसर्स राधालक्ष्मी कोटन जिनिंग एण्ड प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 और		
212.	030278	मैसर्स अमीन इंजीनियर्स लिमिटेड	निम्नलिखित कंपनियों के विषय में		
213.	042221	मैसर्स एकमा फीलकेप प्राईवेट लिमिटेड	शिलांग-793001, दिनांक 25 फरवरी 2013		
214.	049155	मैसर्स कोम्पोसाइट प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	सं. कर/560(5)/4443--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560		
			की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि		

निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	010043	मैसर्स मनास रियल स्टेट एण्ड कन्सट्रक्शन लिमिटेड
2.	002195	मैसर्स डेको इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	008281	मैसर्स भेदीक फेरो एल्लोस प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पूर्व क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 25 फरवरी 2013

सं. कर/560(5)/4453--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	009528	मैसर्स बेजबलूवा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	008970	मैसर्स एस.बी.पी. मल्टी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
3.	001080	मैसर्स धनपतराय अग्रवाल एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
4.	008415	मैसर्स हिल्स ट्रेड्स लिंक प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
उ. पूर्व क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और  
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कटक-753014, दिनांक 27 फरवरी 2013

सं. आर.ओ.सी./560(5)/1181--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	474	मैसर्स उड़ीसा वायर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	1271	मैसर्स जनकल्याण फाईनेस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	1299	मैसर्स जयाविजय इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
4.	1494	मैसर्स अभीराम ग्लास इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	1495	मैसर्स उड़ीसी सिरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	1801	मैसर्स एक्सीलेंट केशयू प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	1870	मैसर्स होटल रिपोज प्राईवेट लिमिटेड
8.	2063	मैसर्स श्रीक्रेस्ट्रा फाईनान्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	2130	मैसर्स फेबरेबल हाऊसिंग फाईनान्स कम्पनी लिमिटेड
10.	2331	मैसर्स के. बी. केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
11.	2985	मैसर्स डेफोडिल्स कर्माशियल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेस (उड़ीसा) लिमिटेड
12.	3018	मैसर्स चन्द्रेश्वर फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
13.	3088	मैसर्स सीकरिया रिसर्च एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	3187	मैसर्स सुरीम हाऊसिंग एण्ड हायर परचेज कम्पनी लिमिटेड
15.	3201	मैसर्स ग्रीनेजी प्लाटिशनस लिमिटेड
16.	4022	मैसर्स इन्डो-ग्लोबल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
17.	4152	मैसर्स होटल ओसिस प्राईवेट लिमिटेड
18.	4163	मैसर्स सिटी ट्रेडर्स लिमिटेड
19.	4665	मैसर्स एन. एन. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	4682	मैसर्स अंगुल आय प्राईवेट लिमिटेड
21.	4802	मैसर्स ग्रीनेज इस्टेट्स लिमिटेड
22.	5557	मैसर्स ज्योसना कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	5775	मैसर्स श्री श्याम खादू मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	5824	मैसर्स प्रतिवा धियेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	5878	मैसर्स अरूपा ट्रेवल्लस एण्ड कोरियर सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
26.	5959	मैसर्स कलावती कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	6302	मैसर्स रश्मि ग्रेनाइट्स प्राईवेट लिमिटेड
28.	6919	मैसर्स एस. टी. एम. एस. कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
29.	7155	मैसर्स शैलजा ईस्टकॉन प्राईवेट लिमिटेड
30.	8077	मैसर्स डी. पवन कुमार मिनरल्स एण्ड कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
31.	8106	मैसर्स सिद्धि मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	8123	मैसर्स श्री राजामाथा लॉजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड

सी. के. दास  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उड़ीशा

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 21st February 2013

## CORRIGENDUM

No. 203985/2/23/12-Admn.—In partial modification to the Commission's Notification of even number dated 12th February, 2013, vide which Shri S. P. N. Singh, IDAS (86) has been appointed as Additional Secretary (JS Level) in the Commission, the name of Shri S. P. N. Singh, Addl. Secretary may be read as Shri Sanjeev P. N. Singh.

R. S. SINHA  
Dy. Secy. (Admn.)

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(SARDAR VALLABHBHAI PATEL  
NATIONAL POLICE ACADEMY)

Hyderabad-500052, the 12th February 2013

No. 15011/4/2013-Estt.—In pursuance of communication No. I-21016/14/2012-IPS-III dated 18.12.2012 of MHA, Dr. Nikhil J. Gupta, IPS (MH:1996) is appointed as Deputy Director in the SVP National Police Academy, Hyderabad with effect from the forenoon of 6th February, 2013 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier, on usual terms and conditions of deputation.

MILIND KANASKAR  
I/c Director

BUREAU OF POLICE RESEARCH  
AND DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 1st March 2013

No. 3/1/2006-Admn.—Consequent upon his superannuation from service, Dr. Tapan Chakraborty Assistant Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India has relinquished the charge of Assistant Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, New Delhi with effect from the afternoon of 31st January, 2013.

DHANI RAM  
Asstt. Dir. (Admn.)

DIRECTORATE GENERAL, CENTRAL  
RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 14th February 2013

No. R-II-1/13-Pers.(MOs)—The President is pleased to appoint the following Doctors as Medical Officer/Assistant Commandant [General Central Service Group-A (Gazetted)/Non Ministerial] in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/-

in temporary capacity from the dates as shown against their names till further orders :—

Sl. No.	Name	Reported/Joined at	Date of Reporting
1.	Dr. Poonam	CH Jammu	08.02.2013 (FN)
2.	Dr. Mahanta Vijay Kumar Devanna	CH Pune	11.02.2013 (FN)

B. S. CHAUHAN  
DIGP (Pers.)

No. O-II-3890/11-Pers.-MOs—Consequent on acceptance of his resignation by the Competent Authority, Dr. Sreenath A.M., (IRLA-8659), Medical Officer/Assistant Commandant, 211 Bn., CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 31.01.2013. Accordingly, his name stands deleted from the rolls of the Force wef 31.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

The 15th February 2013

No. O-II-6504/2013-DA-4-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the Competent Authority, Shri Sunil Kumar, Dy. Commandant (IRLA-6504) of 193 Bn. has relinquished his post on 06.02.2013 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 06.02.2013 (FN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

The 25th February 2013

No. O-II-6605/2012-DA-4-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of resignation from Government Service by the Competent Authority, Shri Shoor Veer Singh, Dy. Commandant (IRLA-6605) of 207 CoBRA Bn. has relinquished his post on 31.01.2013 (AN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 31.01.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-6499/2013-DA-4-Pers.—Consequent on acceptance of his notice of Voluntary Retirement from Government Service by the Competent Authority, Shri Bhim Singh Khatana, Dy. Commandant (IRLA-6499) of 138 Bn. has relinquished his post on 01.02.2013 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from 01.02.2013 (FN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. O-II-9116/2013-Pers.(A/C)—Consequent on acceptance of his request for reversion from the post of Asstt. Commandant to the post of Inspector/GD (previously held by him), Shri Dinesh Dhari Singh, Asstt. Commandant (Trainee) (IRLA-9116) of DAGOs-43rd (A) (relegated to 44th batch) relinquished the charge of his post on the afternoon of 14.02.2013. Accordingly, he has been struck off the strength of Asstt. Commandant of this department with effect from the same date i.e. 14.02.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. D.V.-1/2012-Pers.(A/C)—Consequent on acceptance of notice dated 21.11.2012 for resignation from service, Shri Yengkhom Rakesh Singh, Assistant Commandant (IRLA-7094) of 201 CoBRA Bn., CRPF relinquished the charge of his post on the afternoon of 16.02.2013. Accordingly, he has been struck off the strength of this department with effect from the same date i.e. 16.02.2013 (AN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

No. D.I.-09/2009-12-Pers.-DA-8—Consequent on their selection for posting as Additional Superintendent of Police (Ops) in Naxal/LWE affected districts of Jharkhand, on deputation basis for a period of three years vide MHA Office Memorandum letter No. I-21022/1/2012-Pers.-II dated 12.12.2012, services of the following officers are placed at the disposal of DGP, Jharkhand from the dates shown against each :—

Sl. No.	IRLA No.	Rank & Name	Unit/ Sector	Date of relief from CRPF
1.	5181	(S/Shri) Vikash Kumar Sinha, DC	11 Bn./BS	01.01.2013 (AN)
2.	5163	Ravi Shankar Mishra, DC	CTC MKD/ Trg. Dte.	07.01.2013 (AN)
3.	5285	Manish Kumar Bharti, DC	209 Bn./ CoBRA Sector	17.01.2013 (AN)

B. S. CHAUHAN  
DIGP (Pers.)

The 27th February 2013

No. R-II-1/2013-Pers.(MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sunil Kumar Dhakad as Medical Officer/ Assistant Commandant [General Central Service Group-A (Gazetted)/Non Ministerial] in Central Reserve Police Force in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 5,400/- in temporary capacity wef 06.02.2013 (FN).

B. S. CHAUHAN  
DIGP (Pers.)

No. D-I-02/2006-Pers.-DA-8—Consequent on her selection for appointment to the post of Sr. Security Officer in SPG on deputation basis for a period of six years vide Cabinet Secretariat, GoI Order No. A-12011/02/2012-SS dated 07.03.2012, services in respect of Smt. Anjana, Asstt. Commandant (IRLA-8542) of 88(M) Bn., CRPF is placed at the disposal of SPG with effect from 10.12.2012 (FN).

B. S. CHAUHAN  
DIG (Pers.)

New Delhi-110003, the 14th February 2013

No. P-VII-2/2013-MIN—Consequent on his promotion from Subedar Major (Steno) to the rank of Assistant Commandant (Private Secretary), Shri Subhash Chandra, (IRLA-9327) of O/o Inspector General of Police, Central Reserve Police Force, Jammu (presently on deputation with Prime Minister Office) has taken over charge as Assistant Commandant (Private Secretary) at O/o Prime Minister's Office, New Delhi on 07.12.2012 (FN).

SATPAL KAPOOR  
DIGP (Organisation)

The 21st February 2013

No. P-VII-1/2013-Min—Consequent on his promotion from Subedar Major (Ministerial) to the post of Assistant Commandant (Ministerial), Shri O. P. Yadav (IRLA-9271), has taken over charge as Assistant Commandant (Ministerial) at O/o DIGP, Central Reserve Police Force, Jammu on 13.09.2012 (FN).

SATPAL KAPOOR  
DIGP (Organisation)

DIRECTORATE GENERAL  
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE  
New Delhi-110003, the 20th February 2013

No. E-15014/1/2012/Pers.II/Vol.IV/345—The President is pleased to declare satisfactory completion of probation period in respect of following Assistant Commandants and confirmed in the respective rank as per details given below :—

Sl. No.	Name	Rank	Date of Promotion/Appnt. as AC	Probation period completed satisfactorily on	Date of Confirmation as AC	Unit
1	2	3	4	5	6	7
	(S/Shri)					
1.	Avnish Kumar	AC/Exe.	04.05.2010	03.05.2012	04.05.2012	2nd Res. Bn. Ranchi
2.	Chander Veer Singh	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	HEP Uri
3.	Rajender Singh Panwar	AC/Exe.	05.02.2010	04.02.2012	—	ONGC Dehradun
4.	G. R. Morghade	AC/Exe.	05.02.2010	04.02.2012	—	IOC Panipat
5.	V. K. Sharda	AC/Exe.	06.02.2010	05.02.2012	—	GBS Delhi
6.	Mange Ram	AC/Exe.	05.02.2010	04.02.2012	—	RTC Arakkonam
7.	Manish Kumar Sharma	AC/Exe.	22.04.2009	21.04.2011	25.08.2012	4th Res. Bn. Jaipur
8.	Raman Kumar Singh	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	HPCL Vizag
9.	Baliraj Pathak	AC/Exe.	05.02.2010	04.02.2012	—	GAIL Pata
10.	Prabhu Ram	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	SSG Noida
11.	Vinod Dabade	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	SSG Noida
12.	Savitoj Singh Gill	AC/Exe.	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	BSP Bhilai
13.	Rajpal	AC/Exe.	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	BSP Bhilai
14.	Vikas Pandey	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	HPCL Mumbai
15.	Tapan Kumar Poddar	AC/Exe.	23.05.2010	22.05.2012	23.05.2012	BPCL Mumbai
16.	Ravi Yadav	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	OIL Duliajan
17.	Deepak Kumar	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	3rd Res. Bn. Bhilai
18.	Koda Raju	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	3rd Res. Bn. Bhilai
19.	Biren Kumar Sethy	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	ASG Ahmedabad
20.	A. M. Prasad	AC/Exe.	05.02.2010	04.02.2012	—	EPL Ennore
21.	T. Haokip	AC/Exe.	23.05.2010	22.05.2012	23.05.2012	SDSC (SHAR)
22.	Vikram Singh	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	BIOM Bachel
23.	Satish Kumar Singh	AC/Exe.	17.04.2010	16.04.2012	17.04.2012	CHPT Chennai
24.	Manjeet Kumar	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	LPSC Mohindergiri
25.	Absolam Kachhap	AC/Exe.	26.07.2010	25.07.2012	—	SECL Bilaspur
26.	Jitender	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	7th RB Jaipur
27.	Neeraj Kumar	AC/Exe.	22.05.2010	21.05.2012	22.05.2012	SPG Delhi
28.	Tara Singh	AC/JAO	15.01.2010	14.01.2012	—	BSP Bhilai
29.	Pawan Kumar Dhamija	AC/JAO	15.01.2010	14.01.2012	—	6th RB Deoli
30.	Tuhin Kumar Mandal	AC/JAO	22.02.2010	21.02.2012	—	NZ Saket
31.	Jay Kumar Gupta	AC/Fire	02.02.2010	01.02.2012	—	FSTI Hyderabad

1	2	3	4	5	6	7
32.	Raghuwar Dayal	AC/Fire	12.01.2010	11.01.2012	—	RhSTPP Rihand
33.	Ravi Bhushan Bagaria	AC/Fire	25.01.2010	24.01.2012	—	SSTPS Shaktinagar
34.	D. K. Kar	AC/Exe.	17.02.2010	16.08.2012	—	DSP Durgapur
35.	C. V. Seshagiri Rao	AC/Exe.	05.02.2010	04.08.2012	—	9th RB Deoli
36.	Siddheshwar Singh	AC/JAO	15.01.2010	15.12.2012	—	ECL Seetalpur
37.	A. K. Lahiry	AC/JAO	23.01.2010	22.07.2012	—	E & NE AP Kolkata
38.	U. P. Srivastava	AC/JAO	18.01.2010	17.07.2012	—	VSP Vizag
39.	Bhagawan Patro	AC/JAO	12.02.2009	11.02.2012	—	APS NZ HQRs
40.	Rajeev Ranjan	AC/Exe.	17.04.2010	Fit from the date of SHAPE-I	—	NPC Kaiga

Sd/- ILLEGIBLE  
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT)  
ODISHA

Bhubaneswar, the 1st March 2013

No. Admn. (G&SSA) 17-2 (AO/Vol-VII/3516—In pursuance of OOC No. 1256 dated 31.01.2013 and No. 1343 dated 19.02.2013 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-02- (AO)/Vol.-VII/3245 dated 31.01.2013 and No. 3445 dated 19.02.2013 respectively the following Asstt. Audit Officers on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with corresponding Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the dates as indicated against them :—

Sl. No.	Name	Date of taking over charge as Audit Officer
	(S/Shri)	
1.	Bhabani Prasana Nayak	01.02.2013 (FN)
2.	Ms. Subhasmita Acharya	01.02.2013 (FN)
3.	Pradipta Kumar Khato	01.02.2013 (FN)
4.	Deepak Mohanty	01.02.2013 (FN)
5.	Shribatsa Baliarsingh	01.02.2013 (FN)
6.	Nanda Kumar Bai	04.02.2013 (FN)
7.	Durga Madhab Mishra	25.02.2013 (FN)

DEEPAK MOHANTY  
Audit Officer/Admn.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT  
(LABOUR BUREAU)

Shimla-171004, the 28th February 2013

No. 5/1/2013-C.P.I.—The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 increased

by 1 point and stood at 221 (two hundred twentyone) for the month of January, 2013.

S. S. NEGI  
Director

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,  
FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(NATIONAL TEST HOUSE)

Kolkata-91, the 11th December 2012

No. G-318/A (HQ)/ 2012-ADA—The Competent Authority is pleased to promote Shri Subrata Chatterjee, Office Supdt. NTH/ER, Kolkata as Assistant Director (Administration) (Gr.-II) in National Test House, ER, Salt Lake, Kolkata, on regular basis in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- in PB-2, with effect from 10.12.2012 (FN).

A. K. SENGUPTA  
Dy. Director (Admn.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 26th February 2013

No. 21/11/(2)/2012-CCS/2789—The President is pleased to appoint Shri Chetram Singh, Deputy Controller of Accounts (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Joint Controller (Finance & Accounts) (PB-3, Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 7,600/-) in Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad w.e.f. 11.12.2012 (FN), until further orders.

C. D. CHACKO  
Under Secy.

No. 21/11/(2)/2012-CCS/2791—The President is pleased to appoint Smt. R. Uma Maheswari, Accounts Officer (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with GP Rs. 5,400/-), Heavy Water Plant, Manuguru of this Department as Senior Accounts Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 5,400/-) in the same unit w.e.f. 16.03.2012 (FN), until further orders.

C. D. CHACKO  
Under Secy.

No. 21/11/(2)/2012-CCS/2793—The President is pleased to appoint Shri R. Chandrasekaran, Senior Accounts Officer (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 5,400/-), Directorate of Construction Services and Estate Management of this Department as Deputy Controller of Accounts (PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with GP Rs. 6,600/-) in Heavy Water Plant, Kota w.e.f. 17.10.2012 (FN), until further orders.

C. D. CHACKO  
Under Secy.

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES  
AND ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 15th February 2013

No. DCSEM/A/2 (199)/2012-Rectt./167—The President is pleased to appoint the following Officers in the Directorate of Construction, Services and Estate Management, Department of Atomic Energy on their promotion to the grades and dates mentioned below until further orders :—

Sl. No.	Name	Grade on Promotion	Pay Band (Rs.)	Grade Pay (Rs.)	Date of Assumption of charge
1.	Shri P. Aggarwal	SO/H	PB-4, Rs. 37,400—67,000/-	Rs. 10,000/-	20.12.2012 (FN)
2.	Shri M. V. Pillai	SO/H	PB-4, Rs. 37,400—67,000/-	Rs. 10,000/-	20.12.2012 (FN)
3.	Shri K. Kasiperumal	SO/H	PB-4, Rs. 37,400—67,000/-	Rs. 10,000/-	20.12.2012 (FN)
4.	Shri R. Sharma	SO/H	PB-4, Rs. 37,400—67,000/-	Rs. 10,000/-	20.12.2012 (FN)

B. JAGAN MOHAN RAO  
Administrative Officer-III

The 21st February 2013

No. DCSEM/A/3 (2263)/2012-Rectt./177—The President is pleased to appoint Shri Karri Vinod Kumar as Technical Officer/C on an initial pay of Rs. 15,600 in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy in the Pay Band of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from 23.01.2013 (FN) until further orders.

B. JAGAN MOHAN RAO  
Administrative Officer-III

Kalpakkam-603102, the 15th February 2013

No. GSO/28(91)/2013-R/149—Director, GSO is pleased to appoint Shri K. Subramanian, Senior Clerk, IGCAR, Kalpakkam as Assistant Accounts Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 19.01.2012 in an officiating capacity, until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/149—Director, GSO is pleased to appoint Shri S. Ravindran, Assistant Accounts Officer, IGCAR, Kalpakkam as Accounts Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- from 30.04.2010 to 18.10.2012 in an officiating capacity, until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/149—The President is pleased to appoint Shri N. Vijayaragavan, Under Secretary, DAE, Mumbai as Chief Administrative Officer in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- w.e.f. 29.10.2012 in an officiating capacity until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/149—Director, GSO is pleased to appoint Shri H. L. Jadhav, Assistant, BARC, Mumbai as Assistant Personnel Officer in the General Services

Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- w.e.f. 05.09.2012 in an officiating capacity, until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/149—The President is pleased to appoint the following officers as Scientific Officer/C or Technical Officer/C in the General Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- w.e.f. the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	ICNO	Designation	With effect from
1.	Dr. (Smt.) S. Subedha	2121	Scientific Officer/C (Medical)	18.07.2011
2.	Shri Narendra Pedamallu	2123	Technical Officer/C	03.08.2011
3.	Shri S. Saravanan	2127	Technical Officer/C	12.10.2011
4.	Shri K. V. Sajunath	2128	Technical Officer/C	19.10.2011
5.	Dr. (Smt.) Varsha Chandrakant Aitwade	2129	Scientific Officer/C (Medical)	22.11.2011
6.	Dr. Watson Thomas	2138	Scientific Officer/C (Medical)	25.01.2012
7.	Dr. S. Vijayakumar	2156	Scientific Officer/C (Medical)	13.07.2012

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

The 26th February 2013

No. GSO/28(91)/2013-R/156—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer/C of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- as Scientific Officer/D in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. M. K. Mohammed Razeekh	2022	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2009
2.	Dr. G. Devanand Kumar	2023	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2009
3.	Dr. T. Jayachandra	2034	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2009
4.	Dr. Biplab Chatterjee	2036	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2009
5.	Shri M. Muralikumar	773	SO/C	SO/D	01.07.2010

1	2	3	4	5	6
6.	Dr. Karthik Rajendran	2030	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2010
7.	Dr. (Smt.) E. Selvanayagi	2040	SO/C(M)	SO/D(M)	01.07.2010
8.	Shri S. Selvanathan	748	SO/C	SO/D	01.07.2011
9.	Shri P. Manimaran	770	SO/C	SO/D	01.07.2011
10.	Shri Sanjaykumar Chouhan	2056	SO/C	SO/D	01.07.2011

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/157—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/F of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- as Scientific Officer/G in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- in the same Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Dr. Pradip Bhattacharjee	709	SO/F(M)	SO/G(M)	01.07.2009
2.	Dr. K. Mathiyalagan	650	SO/F(M)	SO/G(M)	01.07.2011
3.	Shri Rajasekharappa.E	1110	SO/F	SO/G	01.07.2012
4.	Dr. Deepak Sen	652	SO/F(M)	SO/G(M)	01.07.2012

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/158—The President is pleased to appoint Dr. (Smt.) Meena Nair, Scientific Officer/E of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600/- as Scientific Officer/F in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/- in the same Organisation with effect from 01.07.2010 in an officiating capacity, until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/159—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/D of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- as Scientific Officer/E in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same

Organisation with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Dr. (Smt.) S. Lakshmi Priya	931	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2009
2.	Dr. U. Manoharan	974	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2009
3.	Shri E. Thanigaivel	1033	SO/D	SO/E	01.07.2011
4.	Shri S. Thirunavukkarasu	1119	SO/D	SO/E	01.07.2011
5.	Dr. V. Jayaprakash	930	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2011
6.	Dr. J. Ashraf Ali	1024	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2011
7.	Dr. (Smt.) Nisha Nanoth Pathyan	1028	SO/D(M)	SO/E(M)	01.07.2011

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/160—The President is pleased to appoint Shri K. Manoharan, Scientific Officer/G of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay Rs. 8,900/- as Scientific Officer/H in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 10,000/- in the same Organisation with effect from 12.01.2012 in an officiating capacity, until further orders.

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

No. GSO/28(91)/2013-R/161—The President is pleased to appoint the undermentioned SO/SB of GSO, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- as Scientific Officer/C in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in the same Organisation, with effect from the date indicated against each in an officiating capacity, until further orders:—

Sl. No.	Name	ICNO	Present Grade	Grade on Promotion	With effect from
1.	Shri D. Devarajan	530	SO/SB	SO/C	01.07.2009
2.	Shri S. Rajagopal	801	SO/SB	SO/C	01.07.2010
3.	Shri P. Kumaresan	935	SO/SB	SO/C	01.07.2010

S. S. GONDANE  
Administrative Officer-III

Kalpakkam-603102, the 15th February 2013

No. GSO/28(91)/2013-R/149—The President is pleased to appoint Shri S.S. Gondane, Assistant Personnel Officer, BARC, Mumbai as Administrative Officer-III in the General

Services Organisation, Kalpakkam in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- w.e.f. 12.03.2012 in an officiating capacity, until further orders.

N. VIJAYARAGAVAN  
Chief Administrative Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS  
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Ahmedabad-380013, the 28th February 2013

No. RoC/560(5)/FTE-2013-14/2482—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	020437	M/s. Satyam Texturising Private Limited
2.	051289	M/s. MKS Infrastructure Private Limited
3.	031663	M/s. Shroff Eye Laser Centre Private Limited
4.	063640	M/s. Imperial Comtech Private Limited
5.	016785	M/s. Shri Kartik Studs Limited
6.	054419	M/s. Sujay Education Private Limited
7.	052564	M/s. Shree Shiv Storage Services Private Limited
8.	053052	M/s. Prestige Salt and Storage Services Private Limited
9.	050930	M/s. Coastal Shipping and Marine Services Private Limited
10.	053031	M/s. Avani Salt and Storage Services Private Limited
11.	053439	M/s. New India Agricom Private Limited
12.	051641	M/s. Sage Village Resorts Private Limited
13.	053913	M/s. White Forest Design Private Limited
14.	062878	M/s. Dave Electrical Private Limited
15.	049433	M/s. Dhara Dyechem Private Limited
16.	042098	M/s. Sagement Steel Fab Private Limited
17.	017673	M/s. Hi-Heat Refractories Private Limited
18.	002855	M/s. Fiorican Tours Private Limited
19.	060791	M/s. Nirja Exim Private Limited
20.	056287	M/s. White Mountain Impex Private Limited
21.	037195	M/s. Shree Ratnalay Safe Deposit Vault Private Limited

1	2	3
22.	049781	M/s. Panchwati Cotton Oil Private Limited
23.	038925	M/s. Kaysurya Technologies Limited
24.	043078	M/s. Atit Biofarms Private Limited
25.	042453	M/s. Maitri Processors Private Limited
26.	047784	M/s. Gati Auto-Tech Private Limited
27.	015518	M/s. Kunj Bihari Agrotech Research Private Limited
28.	034977	M/s. Shree Krishna Info-Mobile System Private Limited
29.	034927	M/s. Sumedha Petrochem Private Limited
30.	065730	M/s. Shri Govind Capsas Private Limited
31.	004769	M/s. Precision Technofeb Private Limited
32.	065717	M/s. Shree Shyam Capsas Private Limited
33.	065751	M/s. Prayas Bio Life Science Limited
34.	052203	M/s. Taraella Solutions Private Limited
35.	047332	M/s. Tisha Designer Fabrics Private Limited
36.	024254	M/s. Pacifique Secured Gold Jewellery Private Limited
37.	026287	M/s. Aasu Petrochem Private Limited
38.	005251	M/s. Multiquip Marketing Private Limited
39.	022381	M/s. Anuj Polyfab Private Limited
40.	023136	M/s. AMI Imports Exports Private Limited
41.	009336	M/s. Anupa Auxichem Agency Private Limited
42.	004222	M/s. Fine Insulations Private Limited
43.	018424	M/s. Shalisaad Chemicals Private Limited
44.	047636	M/s. Gujarat Autogas Private Limited
45.	070575	M/s. Samir Couriers and Cargo Private Limited
46.	036999	M/s. Chirag Infotech Private Limited
47.	062834	M/s. Parth Polyfab Private Limited
48.	065890	M/s. Sphinx Design Trade Private Limited
49.	008794	M/s. Revanta Publishing Private Limited
50.	030416	M/s. Vishal Crop Science Private Limited
51.	061111	M/s. MCO Marketing Private Limited
52.	046395	M/s. Hi-Tech Real Estate (India) Private Limited
53.	058489	M/s. Pure Cash Machine Private Limited
54.	054885	M/s. Aakash Multitrade Private Limited

1	2	3
55.	015643	M/s. Billiard Tex Crimp Private Limited
56.	059808	M/s. Aurazone Energy and Power Private Limited
57.	043915	M/s. Kartikay Commercial Services Private Limited
58.	007026	M/s. Alok Enterprises Private Limited
59.	038406	M/s. Kundan Infosys Limited
60.	035641	M/s. Kaizen Appliances Private Limited
61.	030543	M/s. Atmiya Pharmaceuticals Private Limited
62.	001624	M/s. Dipco Foundry Forge Private Limited
63.	026578	M/s. Union Forex Private Limited
64.	054667	M/s. Akshar Crop Care Private Limited
65.	043945	M/s. Daniel Builders Private Limited
66.	056541	M/s. Borsad Agro Marketing Private Limited
67.	062767	M/s. Essar Utility Projects Limited
68.	060868	M/s. BLC Network Marketing Private Limited
69.	013747	M/s. Patson Marketing Services Private Limited
70.	032396	M/s. Zircon Impex Private Limited
71.	066686	M/s. United Recyclers Private Limited
72.	020418	M/s. Town Plaza Hotels (Ahmedabad) Private Limited
73.	053069	M/s. RSP Godmind Online Solutions Private Limited
74.	043963	M/s. Arthav Enterprises Private Limited
75.	046471	M/s. Shaarav Realty Private Limited
76.	036650	M/s. Sunrise Yarns and Fibers Limited
77.	045546	M/s. Aatmiya Bio-Fuel Private Limited
78.	062386	M/s. SOG Consultancy Private Limited
79.	058994	M/s. Akshat Power Private Limited
80.	065099	M/s. Shree Ambe Castables Private Limited
81.	052757	M/s. Akshat Minerals and Chemicals Private Limited
82.	061705	M/s. SOG Hotels and Resorts Private Limited
83.	052164	M/s. Akshat Stock Broker Private Limited
84.	057936	M/s. Greenspace Enertech Private Limited
85.	048296	M/s. Trojan Immigration Services Private Limited
86.	013598	M/s. Ramdev Metals Private Limited

1	2	3	1	2	3
87.	051682	M/s. Raj (India) Export Import Private Limited	117.	066221	M/s. Synergy Oilfield Services Private Limited
88.	028359	M/s. Popular Ride (Gujarat) Finance Private Limited	118.	048504	M/s. Accurate Rollers Private Limited
89.	037104	M/s. I L Systems India Private Limited	119.	032139	M/s. Shree Jawalaji Securities Private Limited
90.	013768	M/s. Chika Pharma Chem Private Limited	120.	010219	M/s. Ambuja Textile Mills Private Limited
91.	031811	M/s. Altius Exim Private Limited	121.	037838	M/s. IT Ideas and Solutions Private Limited
92.	056339	M/s. Super City Courier and Cargo Private Limited	122.	018177	M/s. Parishram Techno Engineering Services Private Limited
93.	049414	M/s. Greenorigin Organic Foods Private Limited	123.	052147	M/s. Pulse Aviel Solutions Private Limited
94.	012585	M/s. Mona Organo Chemicals Private Limited	124.	006905	M/s. Pelican Fashions Private Limited
95.	007953	M/s. J. D. Electronics Inds Private Limited	125.	020155	M/s. Anuradha Photochem Private Limited
96.	054971	M/s. N. H. Stocks and Currency Brokers Private Limited	126.	054581	M/s. Shree Rang Commodities Private Limited
97.	048690	M/s. Engineering Design Resources Private Limited	127.	057597	M/s. Pyramid Portfolio Tradecom Private Limited
98.	045952	M/s. Fistra Infotech Private Limited	128.	017161	M/s. Uniera Laboratories Limited
99.	052670	M/s. MBBS Solution Private Limited	129.	022554	M/s. Packprint (India) Private Limited
100.	035415	M/s. Jeevanpran Food Pharma Chem Private Limited	130.	050704	M/s. JK Aluminums Private Limited
101.	055220	M/s. Balaji Online Services Private Limited	131.	009923	M/s. Feni Marketing Private Limited
102.	064127	M/s. Aloefair Natura Private Limited	132.	061788	M/s. Win Frontend Solution Private Limited
103.	052722	M/s. Rajasthan Sez Private Limited	133.	040765	M/s. Info-Media Techno Parks Private Limited
104.	031514	M/s. Royal Hyper Elevators Private Limited	134.	038433	M/s. Saregra Infotainment Private Limited
105.	065117	M/s. Naxicam Solutions Private Limited	135.	001415	M/s. Tinmco Private Limited
106.	056352	M/s. Rosebys International Limited	136.	009097	M/s. Mukund Polytex Limited
107.	052843	M/s. Murlidhar Logistics Private Limited	137.	049653	M/s. Golf Management Group Private Limited
108.	052712	M/s. Shree Laxmi Salt Crushing and Storage Services Private Limited	138.	054441	M/s. Dalmia Vidyapeeth Private Limited
109.	053201	M/s. Niranjan Logistics Private Limited	139.	052758	M/s. Shree Tirupati Salt Crushing and Warehousing Private Limited
110.	058844	M/s. Vaarso Events Private Limited	140.	040019	M/s. Vaishnav Impex Private Limited
111.	006589	M/s. Halol Synthetics Private Limited	141.	052565	M/s. Shree Vishnu Warehousing Private Limited
112.	012846	M/s. Kings-Bi-Metal Products Private Limited	142.	065310	M/s. Space Matrix Mobile (Gujarat) Private Limited
113.	050692	M/s. Nzed Engitrade Private Limited	143.	039753	M/s. Yog Sagar Herbal Limited
114.	049854	M/s. Ambalal Patel Chasmawala Private Limited	144.	020158	M/s. Sirali Synthetics Private Limited
115.	052904	M/s. D' Mart Retail Private Limited	145.	001799	M/s. Royals Investment Private Limited
116.	052910	M/s. Krishiram Power Generation Private Limited	146.	029517	M/s. Sisal Plantation Private Limited
			147.	052257	M/s. Shreshth Gymkhana Private Limited

1	2	3
148.	052686	M/s. Limitless Fortune Finance Consultancy Private Limited
149.	038653	M/s. Patidar Food Limited
150.	059589	M/s. Kisan Real Estate Private Limited
151.	046675	M/s. Govardhan Restaurant and Palace Private Limited
152.	047188	M/s. Anuj Consultants Private Limited
153.	062786	M/s. Dwitee Fabrics Private Limited
154.	059606	M/s. Kandla Industrial and Development Company Private Limited
155.	051217	M/s. Total Healthworks Private Limited
156.	050499	M/s. Urban Space Ventures Private Limited
157.	051249	M/s. Pelican Ebay Private Limited
158.	050496	M/s. Oceanic Hotels Private Limited
159.	050633	M/s. Tiger Infra-Systems Private Limited
160.	071222	M/s. Yogkiran Infra Energy Agro Private Limited
161.	068742	M/s. Abhishek Cotton Private Limited
162.	062065	M/s. Scape Township (Dholera) Private Limited
163.	061404	M/s. Scape Township Private Limited
164.	066051	M/s. Spark Power Projects Private Limited
165.	067062	M/s. Prakruti Realty Private Limited
166.	035097	M/s. Vinpack Agro Private Limited
167.	050587	M/s. Omkar Media Entertainment Private Limited
168.	064660	M/s. Padmavati Infrabuild Private Limited
169.	054440	M/s. Olpad Gymkhana Private Limited
170.	003194	M/s. Law Garden Gymkhana Private Limited
171.	0026457	M/s. Bass Auto Private Limited
172.	033242	M/s. Bhagwati Fine Flex Private Limited
173.	024029	M/s. Sonal Securities Limited
174.	055118	M/s. Jobdila Solutions Private Limited
175.	054681	M/s. Essar Heavy Engineering Services Limited
176.	054687	M/s. KPG Exim (India) Private Limited
177.	060475	M/s. HVI Systems Private Limited
178.	067397	M/s. Blue Print Infotech Private Limited

1	2	3
179.	054348	M/s. Dow-GacI Solventure Limited
180.	050817	M/s. Business Bay Infrastructure & Realities Private Limited
181.	055486	M/s. Forever Corporate Services Private Limited
182.	062746	M/s. Essar Infrastructure Projects Limited
183.	064975	M/s. Contrast Eatery Private Limited
184.	048521	M/s. Riteteck Technology Private Limited
185.	032478	M/s. Meena Power Supply Private Limited
186.	024384	M/s. Glory Bulion Trading Private Limited
187.	040339	M/s. ARK Performance Polymers Private Limited
188.	064024	M/s. Nandesari Plasma Technologies Private Limited
189.	043440	M/s. Karsol Soft-Design Private Limited
190.	060942	M/s. DSV Hotels & Resorts Private Limited
191.	062368	M/s. Asdi Outsourcing India Private Limited
192.	060936	M/s. Rectom Finserve Private Limited
193.	063171	M/s. Satellite Power Tech Private Limited
194.	042386	M/s. Gaurav Events Organizer Private Limited
195.	053710	M/s. Parshwa Jewels Private Limited
196.	057507	M/s. Mars Consul-Tech Private Limited
197.	058891	M/s. Devveer Textiles Private Limited
198.	059812	M/s. Aarya Aurum Private Limited
199.	036173	M/s. Arpit Developers Private Limited
200.	029252	M/s. Vikrant Agencies Private Limited
201.	066792	M/s. Allure Cable Assemblies Private Limited
202.	055634	M/s. MRH Sourcing Private Limited
203.	055225	M/s. Mihir Ispat Private Limited
204.	047348	M/s. Vadiawala Papers Private Limited
205.	057785	M/s. Ram Roop Processors Private Limited
206.	022808	M/s. Anarelecs Private Limited
207.	043709	M/s. Aaryashah Marketing Private Limited
208.	046055	M/s. Essar Steel Karnataka Limited

1	2	3
209.	060228	M/s. Rishi Elmech Private Limited
210.	064306	M/s. Time Diagnostics Private Limited
211.	044553	M/s. Radhalaxmi Cotton Ginning and Pressing Private Limited
212.	030278	M/s. Amin Engineers Limited
213.	042221	M/s. Acma Fillcap Private Limited
214.	049155	M/s. Composite Projects Private Limited
215.	007745	M/s. Visnagar Submersible Pumps Private Limited
216.	064728	M/s. Syscom Study Concepts Private Limited
217.	035191	M/s. Geecee Cargo Agents Private Limited
218.	063094	M/s. FJ Marketing Private Limited
219.	009304	M/s. Gem Surgicals Private Limited
220.	060014	M/s. Inox Foods Private Limited
221.	061425	M/s. Greenspace Agriculture Private Limited
222.	061432	M/s. Greenspace Ventures Private Limited
223.	050266	M/s. Sukhmani Energy Private Limited
224.	055246	M/s. Klaxon Voice Private Limited
225.	052624	M/s. Solid Logistics Limited
226.	051804	M/s. Takshashila Infrastructure Private Limited
227.	054531	M/s. Marvel Tradex Private Limited
228.	047411	M/s. Ambuja Cottfiber Private Limited
229.	059470	M/s. Cisco Infraprojects Private Limited

V. S. HAJARE  
Asstt. Registrar of Companies  
Gujarat, Dadra and Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act 1956 and of  
M/s. Finpic Leasing and Finance Limited

Panaji-403001, the 20th February 2013

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Finpic Leasing and Finance Limited has this day been struck off the Register and the said Company is dissolved.

SRIDHAR PAMARTHI  
Registrar of Companies  
Goa, Daman and Diu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Shillong-793001, the 25th February 2013

No. ROC/SH/560(5)/2013/4443—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	010043	M/s. Manas Real Estate & Construction Limited
2.	002195	M/s. Deco Engineers Private Limited
3.	008281	M/s. Vedic Ferro Alloys Private Limited

G. C. YADAV  
Registrar of Companies  
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Shillong-793001, the 25th February 2013

No. ROC/SH/560(5)/2013/4453—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	009528	M/s. Bezbaruah Developers Private Limited
2.	008970	M/s. SBP Multi Marketing Private Limited
3.	001080	M/s. Dhanpatrai Agarwala & Co. Private Limited
4.	008415	M/s. Hills Trade Link Private Limited

G. C. YADAV  
Registrar of Companies  
N. E. Region

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following Companies

Cuttack-753014, the 27th February 2013

No. ROC/Sec/560(5)/2013/1181—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have

this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	15-00474	M/s. Orissa Wire Products Private Limited
2.	15-01271	M/s. Janakalyan Finance and Investment Private Limited
3.	15-01299	M/s. Jayabijay Industries Limited
4.	15-01494	M/s. Abhiram Glass Industries Private Limited
5.	15-01495	M/s. Odyssey Ceramics Private Limited
6.	15-01801	M/s. Excellent Cashew Products Private Limited
7.	15-01870	M/s. Hotel Repose Private Limited
8.	15-02063	M/s. Sriksheeta Finance and Investment Limited
9.	15-02130	M/s. Favourable Housing Finance Company Limited
10.	15-02331	M/s. K. B. Chemical Industries Private Limited
11.	15-02985	M/s. Daffodils Commercial Investment and Finance (Orissa) Limited
12.	15-03018	M/s. Chandaneswar Finance and Investment Company Private Limited
13.	15-03088	M/s. Sikaria Research and Consultants Private Limited
14.	15-03187	M/s. Suyreme Housing and Hire Purchase Company Limited

1	2	3
15.	15-03201	M/s. Greenedge Plantations Limited
16.	15-04022	M/s. Indo-Global Projects Limited
17.	15-04152	M/s. Hotel Oasis Private Limited
18.	15-04163	M/s. City Traders Limited
19.	15-04665	M/s. N. N. Builders Private Limited
20.	15-04682	M/s. Angul Atta Private Limited
21.	15-04802	M/s. Greenedge Estates Limited
22.	15-05557	M/s. Jyosna Constructions Private Limited
23.	15-05775	M/s. Shree Shyam Khatu Marketing Private Limited
24.	15-05824	M/s. Prativa Theaters Private Limited
25.	15-05878	M/s. Arupa Travels and Courier Service Private Limited
26.	15-05959	M/s. Kalawati Constructions Private Limited
27.	15-06302	M/s. Rashmi Granites Private Limited
28.	15-06919	M/s. Stms Consultants Private Limited
29.	15-07155	M/s. Sailaza Estcon Private Limited
30.	15-08077	M/s. D. Pavan Kumar Minerals and Carriers Private Limited
31.	15-08106	M/s. Siddhi Minerals Private Limited
32.	15-08123	M/s. Sri Rajamatha Logistics Private Limited

C. K. Das  
Asstt. Registrar of Companies  
Odisha

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013